

विलफ्रेडो परेटो: अभिजनों का परिभ्रमण (Vilfredo Pareto: Circulation of Elites)

डॉ. अनुराग कुमार पाण्डेय

सहायक प्रोफेसर

समाजशास्त्र विभाग

जे. एस. हिन्दू (पी. जी.) कॉलेज, अमरोहा

अभिजनों का परिभ्रमण

- *Mind and Society*, 1936
- परेटो ने सामाजिक व्यवस्था एवं संतुलन के निर्धारण में अभिजात वर्ग को एक प्रमुख कारक माना है।
- प्रत्येक समाज में सामाजिक भिन्नता तथा सामाजिक संस्तरण पाया जाता है। यह सामाजिक भिन्नता तथा सामाजिक संस्तरण सदैव स्थिर नहीं होता, बल्कि परिवर्तित होता रहता है।
- समाज में परिवर्तन रेखीय न होकर चक्रीय होता है।
- परेटो ने सामाजिक परिवर्तन का कारण सामाजिक विभिन्नता से उत्पन्न अभिजात वर्ग के परिभ्रमण को माना है।
- अभिजनों के परिभ्रमण के सिद्धांत के तीन पक्ष
 - ☞ सामाजिक विभिन्नता
 - ☞ सामाजिक संस्तरण
 - ☞ अभिजात वर्ग का परिभ्रमण

अभिजनों का परिभ्रमण

- सामाजिक व्यवस्था में संतुलन एवं सामंजस्य स्थापित करने के लिए समाज में पाए जाने वाले व्यक्तियों के मध्य की विविधता व विभिन्नता का बहुत महत्व होता है।
- इस विविधता व विभिन्नता से उपजी सामाजिक असमानता सामाजिक संस्तरण को उत्पन्न करती है।
- परेटो ने सामाजिक विविधता व असमानता का कारण विशिष्ट चालक को माना है। समस्त मानवीय व्यवहारों व क्रियाओं का कारण विशिष्ट चालक है।

मानव इतिहास में सदैव से ही असमानता एवं संस्तरण विद्यमान रहा है।

सामाजिक वर्ग


- वे व्यक्ति जो समाज के किसी एक निश्चित क्षेत्र में श्रेष्ठ होते हैं, अभिजन कहलाते हैं।
- समाज में अनेक विशिष्ट क्षेत्र होते हैं, जैसे साहित्य, कला, व्यवसाय, धर्म आदि। इन क्षेत्रों में कई व्यक्ति अभिजन होते हैं।
- हालांकि परेटो ने केवल प्रशासनिक अभिजनों का ही उल्लेख किया है।
- परेटो का मानना है कि समाज पर शासन तो अभिजन ही करते हैं, लेकिन अभिजन कोई बंद वर्ग नहीं हैं। अर्थात् इनमें परिवर्तन होता है।
- परेटो ने दो सामाजिक वर्गों में विभक्त है –
 - अभिजन वर्ग
 - गैर-अभिजन वर्ग

अभिजन के प्रकार

- अभिजन एक अल्पसंख्यक वर्ग है तथा इसकी संख्या केवल 4 प्रतिशत होती है।
- अभिजात वर्ग के प्रकार
 - शासकीय अभिजन
 - गैर-शासकीय अभिजन
- अभिजात वर्ग वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं तथा सुधारवादी व प्रगतिवादी होते हैं।
- स्वयं को सत्ता में शामिल रखने के लिए यह वर्ग झूठ, बेईमानी, चालाकी, भ्रष्टाचार, रिश्त आदि का सहारा लेता है।
इसीलिए परेटो इन्हें सट्टेबाज की संज्ञा प्रदान करते हैं।

अभिजनों का परिभ्रमण

- प्रत्येक समाज में संस्तरण के रूप में उच्च व निम्न वर्ग पाए जाते हैं तथा समाज व्यवस्था में परिवर्तन सदैव चक्र की भांति होता रहता है।
- आज का उच्च वर्ग कल का निम्न वर्ग होता है तथा कल का शासित वर्ग आज का शासक वर्ग हो जाता है।



परेटो ने इतिहास को कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान/ कब्रगाह कहा है।

अभिजनों का परिभ्रमण

- परेटो के अभिजात वर्ग सिद्धांत के प्रमुख तर्क
 - ☞ कोई भी वर्ग पूर्णतः बंद नहीं होता अर्थात् अभिजात वर्ग एक खुली व्यवस्था है।
 - ☞ अभिजात वर्ग के पास शक्ति होती है तथा यह शक्ति धीरे-धीरे भ्रष्ट हो जाती है, जिससे उनका पतन होने लगता है।
 - ☞ गैर-अभिजात वर्ग में भी चतुर एवं कुशल व्यक्ति होते हैं। वह अपने प्रयत्नों से उच्च वर्ग में प्रवेश पाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन सत्ता में पहुँचने पर वे स्वयं भी अभिजात वर्ग हो जाते हैं।

Next Class:

**मैक्स वेबर: सामाजिक क्रिया
(Max Weber: Social Action)**

धन्यवाद!